

This question paper contains 8 printed pages]

**A—375—2018**

**FACULTY OF SOCIAL SCIENCES**

**B.A. (Second Year) (Fourth Semester) EXAMINATION**

**OCTOBER/NOVEMBER, 2018**

**(CBCS Pattern)**

**ECONOMICS**

**Paper VIII**

**(Statistical Methods)**

**(MCQ & Theory)**

**(Monday, 29-10-2018)**

**Time : 2.00 p.m. to 4.00 p.m.**

**Time—2 Hours**

**Maximum Marks—40**

**N.B. :— (i) Attempt All questions.**

**(ii) All questions carry equal marks.**

**(iii) Use of calculator is allowed.**

**(i) सर्व प्रश्न सोडवा.**

**(ii) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.**

**(iii) गणकयंत्र वापरण्यास परवानगी आहेत्र**

**MCQ**

**1. Multiple Choice Questions :**

**10**

**बहुपर्यायी प्रश्न :**

**(i) Which one of the following is not a measure of dispersion ?**

**(a) Range**

**(b) Quartile deviation**

**(c) Standard deviation**

**(d) Mean**

**खालीलपैकी कोणते परिमाण विचलनशीलतेचे नाही ?**

**(a) विस्तार**

**(b) चतुर्थक विचलन**

**(c) प्रमाण विचलन**

**(d) समान्तर माध्य**

**P.T.O.**

(ii) Who has framed the first index number in the world ?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (a) Italy | (b) America |
| (c) Japan | (d) France  |

जगत सर्वप्रथम कोणत्या देशाने निर्देशांक तयार केला होता ?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (a) इटाली | (b) अमेरिका |
| (c) जपान  | (d) फ्रांस  |

(iii) Which of the following is a kind of correlation ?

- (a) Positive and negative correlation
- (b) Simple and partial correlation
- (c) Linear and non-linear correlation
- (d) All of the above

खालीलपैकी कोणता सहसंबंधाचा प्रकार आहे ?

- (a) धन आणि ऋण सहसंबंध
- (b) साधा आणि आंशिक सहसंबंध
- (c) रेषीय आणि अरेषीय सहसंबंध
- (d) वरीलपैकी सर्व

(iv) Range means.....

- (a) Comparison between two values
- (b) Difference between two values
- (c) Difference between large values and small values in distribution
- (d) Distributed value

विस्तार म्हणजे.....

- (a) दोन मुल्यातील तुलना
- (b) दोन मुल्यातील फरक
- (c) विभाजनातील मोठे मुल्य आणि लहान मुल्यातील फरक
- (d) विभाजित मुल्य

(v) Calculate the Laspeyre's index number from the following data :

$$\Sigma p_1 q_0 = 190, \Sigma p_0 q_0 = 240$$

(a) 69

(b) 79.16

(c) 100

(d) 0.79

खालील माहितीच्या आधारे लास्पीअरचा निर्देशांक काढा :

$$\Sigma p_1 q_0 = 190, \Sigma p_0 q_0 = 240$$

(a) 69

(b) 79.16

(c) 100

(d) 0.79

(vi) If  $Q_1 = 15$  and  $Q_3 = 30$ , then the coefficient of quartile deviation is :

(a) 0.33

(b) 33

(c) 15

(d) 30

जर  $Q_1 = 15$  आणि  $Q_3 = 30$ , तर चतुर्थक विचलन गुणांक काढा :

(a) 0.33

(b) 33

(c) 15

(d) 30

(vii) Which one of the following is *not* component of time series ?

(a) Normative variation

(b) Seasonal variation

(c) Cyclical variation

(d) Secular trend

खालीलपैकी कोणता एक कालमालेचा घटक नाही ?

(a) आदर्शवादी विचरण

(b) मौसमी विचरण

(c) चक्रीय विचरण

(d) दीर्घकालीन कल

P.T.O.

(vii) If standard deviation = 10 and mean = 30, then find the coefficient of standard deviation.

- (a) 3  
(c) 0.33

- (b) 30  
(d) 300

जर प्रमाण विचलन = 10 आणि समान्तर माध्य = 30 तर प्रमाण विचलनांचा गुणक काढा.

- (a) 3  
(c) 0.33

- (b) 30  
(d) 300

(ix) Solve :  $r = \frac{40}{\sqrt{10 \times 160}}$

- (a) 2  
(c) 40

- (b) 0.5  
(d) 1

सोडवा :  $r = \frac{40}{\sqrt{10 \times 160}}$

- (a) 2  
(c) 40

- (b) 0.5  
(d) 1

(x) Solve :  $P_{01} \sqrt{\frac{444}{888} \times \frac{666}{333}} \times 100$

- (a) 10  
(c) 110

- (b) 100  
(d) 111

सोडवा :  $P_{01} \sqrt{\frac{444}{888} \times \frac{666}{333}} \times 100$

- (a) 10  
(c) 110

- (b) 100  
(d) 111

**Theory**

2. Calculate the standard deviation and coefficient of standard deviation from the following data :

10

<b>Class</b>	<b>Frequency</b>
2-4	3
4-6	6
6-8	10
8-10	12
10-12	10
12-14	8
14-16	6
16-18	5

खालील माहितीच्या आधारे प्रमाण विचलन आणि त्याचा गुणक काढा :

<b>वर्ग</b>	<b>वारंवारिता</b>
2-4	3
4-6	6
6-8	10
8-10	12
10-12	10
12-14	8
14-16	6
16-18	5

*Or*

(किंवा)

What is correlation ? State the types of correlation.

सहसंबंध म्हणजे काय ? सहसंबंधाचे प्रकार सांगा.

P.T.O.

3. Calculate the coefficient of correlation from the following data : 10

X	Y
9	15
8	16
7	14
6	13
5	11
4	12
3	10
2	8
1	9

खालील माहितीच्या आधारे सहसंबंध गुणक काढा :

X	Y
9	15
8	16
7	14
6	13
5	11
4	12
3	10
2	8
1	9

Or

(किंवा)

Define Index Number. Explain the importance of Index Number.

निर्देशांकाची व्याख्या सांगा. निर्देशांकाचे महत्व स्पष्ट करा.

4. Attempt the following questions (any two) : 10

(i) Calculate Fisher's index number from the following data :

Goods	2005		2010	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	3	5	4	6
B	4	7	6	8
C	5	8	7	9

(ii) Calculate the quartile deviation from the following data :

X	Y
5	2
10	4
15	7
18	10
20	8
25	5
30	2
32	1

(iii) Components of time series.

(iv) Range.

खालीलपैकी कोणत्याही दोन प्रश्नांची उत्तरे लिहा :

(i) खालील माहितीच्या आधारे फिशरचा निर्देशांक काढा :

वस्तू	2005		2010	
	किंमत	मात्रा	किंमत	मात्रा
A	3	5	4	6
B	4	7	6	8
C	5	8	7	9

P.T.O.

WT

( 8 )

A—375—2018

(ii) खालील माहितीच्या आधारे चतुर्थक विचलन काढा :

X	Y
5	2
10	4
15	7
18	10
20	8
25	5
30	2
32	1

(iii) कालमालेचे घटक

(iv) विस्तार.

A—375—2018

8